



HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Email : hillridgeinvest@gmail.com, Website : hillridgeinvestments.in, CIN : L65993DL1980PLC010757
Tel. : +91-11-28744604, Mob. : +91-9891095232

Date: 02-09-2020

To,
Department of Corporate Services
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400098

Sub: - Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Symbol-HILLRIDGE)

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated 02-09-2020 in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You

For and on behalf of
Hillridge Investments Limited



Sumit Sah
Company Secretary & Compliance Officer

Editorial

Q1 GDP: A reminder of the economic cost of lockdowns

A steep fall of 23.9 per cent in India's real GDP in the first quarter tells us that a contraction of over 5 per cent of GDP in 2020-21 is definitely on the cards. The disaggregated numbers tell a story of the effects of a prolonged lockdown, even as the nation grapples with ever-rising Covid cases. While agriculture was up by a modest 3.4 per cent (quite in line with the trend), mining, manufacturing, construction and trade, transport and communication contracted by 23.3 per cent, 39.3 per cent, 50.3 per cent and 47 per cent, respectively. On the expenditure side of the GDP equation, it is clear that private consumption is no longer in a position to hold up the economy, having fallen 26.7 per cent in Q1. What is, in fact, alarming is the halving of gross fixed capital formation (or investment) to 16 lakh crore; this is even as the decline in investment appetite precedes Covid, as GFCF fell 6.5 per cent in Q1 of 2019-20 as well. The fall of 5.3 per cent in financial, real estate and professional services, another driver of growth, is attributable to the collapse of the brick and mortar sectors and the demand that ensues from them. Real estate and professional services have been impacted by the collapse of consumer demand. What's happening isn't hard to decipher: the supply shock has dragged demand down with it, through loss of jobs, and that is further pulling down the productive forces in a negative spiral. Those who do have the wherewithal to spend are in 'precautionary savings' mode. The onus clearly lies with the government to boost demand in order to break out of this spiral. Even as rate cuts since February and liquidity injections with a view to boosting credit to NBFCs are showing some results.

Small & midcaps wipe out losses as over 30 stocks turn multibaggers in 2020

Our Correspondent

New Delhi/September 01
Big gains in small packet. This has turned out to be true for broader markets in the year 2020 so far. The S&P BSE Midcap index and the S&P BSE Smallcap indices turned positive for the year 2020.

The S&P BSE Mid-cap index closed at 14,967 on December 31, 2019 while the S&P BSE Small-cap index ended at 13,699 on the same day. Both the indices fell below 10,000 levels in March, but managed to get back towards 15,238 on the Midcap index, and 14,990 on the Small-cap index front, as on August 28, 2020.

It took 8 months for the broader markets to reverse losses while the S&P BSE Sensex and the Nifty50 are still negative for the year 2020 so far. After a strong rally in the year, some consolidation

cannot be ruled out but the larger trend still remains intact, say experts.

Strong global liquidity, expectations of normalcy in the economic activity, low-interest rates, attractive valuations, as well as growth potential are some of the factors which have made small & midcaps attractive for retail investors.

"Before starting a longer better bull trend, the market always shakes everyone and thereafter whenever rally comes earning yield, valuations along with some growth visibility mid and small outperform large-caps in that particular year by a good amount," Pritam Deuskar, Founder of Wealthyvia.com told Moneycontrol.

"Broader base is the initial phase and then subsequently it is narrowed down to high earning growth sustainability where multibaggers are



created. The last 3 years of the bear market in small and midcap ended," he said.

He further added that unlock and delayed recovery can only make them stagnant otherwise good companies will be separated from a broad base. The market has already started doing that.

There are as many as 36 stocks in the small & midcap space that have gained more than 100% so far in 2020. These include Deepak Nitrite,

Dixon Tech, Suzlon, Vaibhav Global, Adani Green, Laurus Lab and McLeod Russel.

Broader markets have been outperforming on the back of strong liquidity from global central bankers, and chances are that the outperformance is likely to continue for some more time.

Global liquidity in the stock markets along with lifetime low-interest rates in the US treasury is chasing stocks with high growth

potential, suggest experts.

Stock in broader markets, after two years of underperformance, are now trading at attractive levels and have come on top of the buy lists of many investors and traders.

"Global liquidity in the stock markets along with lifetime low-interest rates in the US treasury is fuelling rally in broader markets," Amit Jain, Co-founder & CEO, Ashika Wealth Advisors told Moneycontrol.

"In India, NIFTY is already trading at P/E of 32, which is one of the richest valuations we have seen in the recent past. Now, once the NIFTY valuation is back to a lifetime high, now there is a high possibility that this Global liquidity may get into midcap stocks, which subsequently, may take midcaps index higher," he said.

Many mid and small-cap stocks have registered three-digit gains since March lows while even the tail-enders within the sectors have been delivering double-digit gains since the last few weeks.

"It looks like liquidity is now chasing growth instead of being risk-averse where participants poured liquidity into safe large caps. Midcap and small-cap space are likely to benefit when the economy recovers fully and demand returns to normalcy," Sacchitanand Uttekar – DVP – Technical (Equity), Tradebulls Securities told Moneycontrol.

"Right now we are starting to see widespread recovery and so mid-cap and small-caps saw their mojo getting back purely based on liquidity rotations. Any dent in sentiment or withdrawal of foreign funds from our market could steal.

Bharti Infratel to proceed with Indus Tower merger

Vodafone to get Rs 4,000 cr for 11.15% holding

MM BUREAU

Mumbai/September 01
Bharti Infratel has informed the exchanges that its Board of Directors discussed, in a meeting held on August 31, the scheme of arrangement with Indus Towers and related agreements, and has decided to proceed with the merger.

"After deliberations the Board has authorised the chairman to proceed with the scheme and comply with other procedural requirements to complete the merger – including approaching the National Companies Law Tribunal (NCLT) to make the scheme effective subject to certain procedural condition precedents," the company's statement read.

Based on the adjustments, the company shared likely shareholding structure (subject to change based on agreed closing adjustments)



as Vodafone with 28.2 per cent stake, Providence Equity Partners (PEP) with 3.2 per cent stake, total share swap for Indus as 31.4 per cent, and Infratel shareholders with 68.6 per cent in the merged company.

"This is a basis cash consideration chosen by Vodafone Idea for its 11.15 per cent shareholding in Indus

held by public shareholders, CNBC-TV18 reported.

Vodafone Idea has entered into certain security arrangements with Bharti Airtel to secure its payment obligations under MSAs, Vodafone Idea and Vodafone Group Plc for the benefit of the merged company, it also informed.

These arrangements include a combination of a security deposit by Vodafone Idea, security via pledge of a certain number of shares of the merged company out of those issued to V Plc. (as part of the scheme) and a Corporate Guarantee by V Plc, which can get triggered in certain situations and events.

"These security arrangements remain subject to all applicable regulatory approvals and any approval of Vodafone Plc's lenders and will provide the merged company a payment.

Sebi refuses to extend Sep 1 deadline to implement new margin pledge rules

MM BUREAU

Mumbai/September 01
Markets regulator Sebi has refused to extend the September 1 deadline to implement the new rules on margin pledge, stock brokers' association Anmi said on Monday.

The new mechanism is aimed at bringing transparency and preventing brokerages from misusing clients' securities.

The decision was taken after Sebi's meeting with stock brokers' association, depositories and clearing corporations. The meeting was held to analyse readiness to implement the new norms.

Sebi had come out with the norms in February and was scheduled to come into effect from June 1. It was extended to August 1 and thereafter to September 1.

According to sources, the regulator has refused to extend the September 1 deadline, as depositories are ready to implement the new



mechanism.

However, Association of National Exchanges Members of India (Anmi), a grouping of around 900 stock brokers from across the country, on Friday urged Sebi to extend the implementation of the new mechanism on margin pledge by one month till September 30, citing several challenges faced by market participants.

Besides, back office vendors group has not given 100 per cent clearance to members to launch the new process, it had added.

"In today's virtual meeting, Sebi's declined to grant extension of further time in implementing margin pledge/repledge process. This came as a big surprise to Anmi and its 900 members. Anmi is holding consecutive meetings with all stakeholders and studying all options available to it in the matter," a spokesperson of Anmi said.

The brokers association had requested for the co-existence of the current systems of title transfer, and the proposed pledge system till September 30.

However, Securities and Exchange Board of India (Sebi) in July had said that trading members (TMs) or clearing members (CMs) can accept client securities as collateral by way of title transfer into the client collateral account as per the present system till August-end.

The regulator had allowed co-existence of

the current title transfer collateral mechanism and the new pledge and re-pledge process till August 31 and had said no further extension will be granted. Tejas Khoday, co-founder and CEO Fyers said, "The new pledge mechanism will bring much-needed transparency and will prevent brokerages from misusing clients' securities". As a result of Sebi's refusal to extend the deadline, traditional brokerages with legacy systems will face huge operational challenges that can cause chaos and unintended consequences in the near future, he added.

Under the framework, trading members or clearing members will require to align their systems and accept client collateral and margin-funded stocks by way of creation of pledge and re-pledge in the depository system. Depositories should provide "margin pledge" for pledging clients' securities as margin to the TM or CM.

Adani to acquire Mumbai airport

MM BUREAU

Mumbai/September 01
Adani group will take control of India's second-busiest airport of Mumbai, in the biggest-ever thrust to its ambition to become a top airports operator.

The Gautam Adani-controlled conglomerate said on Monday that it has entered into a definitive pact to buy the debt of GVK Airport Developers Ltd, against which a 50.5% stake in Mumbai International Airport Ltd (MIAL) has been pledged.

The Adani group will also buy the combined 23.5% stake held by Airport Company of South Africa (Acasa) and South Africa's Bidvest group in MIAL, for which it has obtained the approval of the Competition Commission of India, according to an Adani group statement. This would give the group a 74% stake in MIAL. The remaining 26% stake would be held by

state-run Airports Authority of India.

The deal stands to also give Adani Airport Holdings Ltd (AAHL) a controlling stake in the Navi Mumbai International Airport being developed by GVK group. Also, with one of India's two most profitable international airports in its kitty and having won the development and operation rights over a 50-year lease for the Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Jaipur, Thiruvananthapuram, and Guwahati airports, Adani Enterprises Ltd will be the biggest private sector airport operator in India in terms of the number of airports.

Once the transaction with GVK is completed, it will bring an end to the ongoing tussle between the two sides over control of the airport asset.

Mint reported on 25 August that GVK approached lenders to urgently raise cash to avert a potential takeover



of MIAL.

"The discussions were ultimately not fruitful because of the current market condition and the poor outlook for the aviation sector," a person aware of the matter said, seeking anonymity.

The GVK group has

been battling high debt. In 2018-19, the latest available full-year financials of GVK Power and Infrastructure, the company posted a revenue of 14,098 crore with the airports subsidiary contributing about 13,700 crore, or over 90%. The Mumbai airport contributed

119.4 crore to net profit even as the group reported an overall loss of 1363.49 crore. As of March 2019, GVK Power and Infra had a net debt of 113,600 crore.

The Mumbai airport handled a combined traffic of 45.92 million passengers

L&T Completes sale of Electrical and Automation Business to schneider Electric

MM BUREAU

Mumbai/September 01

Larsen & Toubro (L&T) on Monday announced the completion of its electrical and automation (L&T E&A) business to Schneider Electric, a global player in energy

management and automation. The deal was first announced in May 2018. The divestment is in line with L&T's stated goal of unlocking value for future growth. L&T said in a regulatory filing. L&T continuously evaluates its business portfolio and takes capital allocation decisions from a long-term perspective, the company added. Commenting on the closure of this divestment, Mr. A.M. Naik, Group Chairman, Larsen & Toubro said, "The closure of divestment of the E&A business is a key milestone in our stated long-term strategy..We believe Schneider Electric is the right partner to grow the business, that L&T had nurtured and grown over decades." A total of about 5,000 employees of the L&T E&A business will become part of Schneider Electric's global family. The manufacturing facilities of E&A in Navi Mumbai, Ahmednagar, Vadodara, Coimbatore and Mysuru in India and related subsidiaries in UAE, Kuwait, Malaysia and Indonesia will also be transferred to Schneider Electric. Meanwhile, the Defence Ministry signed contract with L&T, besides Bharat Earth Movers and Tata Power Company, on Monday to supply six Pinaka regiments, a system of rocket launchers, to the Indian Army by 2024 at an approximate cost of 2,580 crore.

At 11:00 am, the shares of L&T were trading high by 1 per cent at 1954.90 on the BSE, compared to the Sensex's gains of 0.6 per cent.



PMI manufacturing expands for the first time in five months in August

MM BUREAU

Mumbai/September 01

India's manufacturing output expanded for the first time in five months in August, signalling a turnaround in industrial activity following the gradual easing of lockdown curbs, starting

June, according to a private survey. According to data analytics firm IHS Markit, India's purchasing managers' index (PMI) for manufacturing rose to 52 in August from 46 in July. A figure above 50 indicates expansion, while a sub-50 print signals contraction.

Shreeya Patel, economist at IHS Markit, said the August reading highlighted positive developments in the health of the Indian manufacturing sector, signalling moves towards a recovery from the downturn in the June quarter. "The pick-up in demand from domestic markets gave rise to upturns in production and input buying," she added. India's economy contracted at a record 23.9% in the June quarter of FY21, underlining the extent of economic damage inflicted by the pandemic. Patel, however, said not all was positive in August, with employment continuing to fall despite signs of capacity pressures as firms struggled to find suitable workers. "The rate of input price inflation was solid, following four monthly declines in cost burdens.



ABHIJIT TRADING CO LTD CIN: L15102DL1902PL000000 Regd. Off: 15/121-122, Jain Bhawan, Faiz Road, W.E.A. Karel Bagh, New Delhi-110005. Email Id: abhijittrading@gmail.com Website: www.abhijittrading.com Ph: 011-25737497	ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED CIN: L28220DL1902PL000000 Regd. Off: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Corporate Off: 47/16, Basement Rajendra Place Metro Station New Delhi 110060 Email Id: alstonetextiles@gmail.com Website: www.alstonetextiles.in Ph: 011-25744161
NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.abhijittrading.in and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.	NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 08th September 2020 at 05:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.alstonetextiles.in and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board For Abhijit Trading Co Ltd Sd/- Akshay Khatri Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer	By order of the Board For Alstone Textiles (India) Limited Sd/- Ashish Garg Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer
GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED CIN: L21901DL1995PL000000 Regd. Off: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Email Id: genesisindia1995@gmail.com Website: www.genesisdevelopersholdings.com Ph: 011-25732857	HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED CIN: L28930DL1902PL000000 Regd. Off: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Email Id: hillridgeinvestments@gmail.com Website: www.hillridgeinvestments.in Ph: 011-25744004
NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 08th September 2020 at 03:00 P.M. at the registered office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.genesisdevelopersholdings.com and also on the website of MSEI Ltd i.e. www.mseil.in.	NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 08th September 2020 at 12:30 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSEI Ltd i.e. www.mseil.in.
By order of the Board For Genesis Developers And Holdings Ltd Sd/- Shikhar Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer	By order of the Board For Hillridge Investments Limited Sd/- Sumit Sah Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer
SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L28910DL1902PL000000 Regd. Off: 47/16, Basement Rajendra Place Metro Station, New Delhi-110060 Corporate Office: 15/121-122, Jain Bhawan, Faiz Road, W.E.A. Karel Bagh, New Delhi-110005. Email Id: sitalleasing@gmail.com Website: www.sitalleasingfinance.com Ph: 011-25737497	SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L28930DL1902PL000000 Regd. Off: 47/16, Basement Rajendra Place Metro Station, New Delhi-110060 Email Id: shrinivasleasingfinance@gmail.com Website: www.shrinivasleasingfinance.com Ph: 011-25737497
NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 12:30 P.M. at the corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.sitalleasingfinance.com and also on the website of MSEI Limited i.e. www.mseil.in.	NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's 'Code of Conduct' to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.shrinivasleasingfinance.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board For Sital Leasing And Finance Ltd Sd/- Nishu Jain Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer	By order of the Board For Shri Niwas Leasing And Finance Ltd Sd/- Ravi Kumar Dhakar Place: New Delhi Date: 01.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer

डॉ. सुनील जैन संचय, ललितपुर

ABHIJIT TRADING CO LTD
CIN: L15190DL1993PL241705
Regd. Off: 16/12-12, Jaspur, Farid Road,
W-2/A, East of Kirti, New Delhi-110005
Email Id- abhi.jitrading@gmail.com
Website- www.abhi.jitrading.in | Pn-21-2357491

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED
CIN: L68290DL1982PC01287
Regd. Off: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Corporate Office: 10/15-16, Connaught Place,
Station New Delhi-110005
Email Id- alstonetextiles@gmail.com
Website- www.alstonetextiles.in | Pn-21-2674161

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 05:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for quarter ended on 30th June 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.abhi.jitrading.in and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.

By Order of the Board
AbhiJit Trading Co. Ltd.
Sd/-
Akhay Khare
Company Secretary &
Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 01.09.2020

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED
CIN: L67190DL1993CG0378
Regd. Off: 8-14, Connaught Place, New Delhi-110060
Email Id- genesisdev@genesisdhops.com
Pn-21-2744604

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 08th September 2020 at 12:30 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.genesisdevelopers.in and also on the website of MSEI Ltd. www.mseil.in.

By order of the Board
For Genesis Developers and Holdings Ltd
Sd/-
Shikha
Company Secretary &
Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 01.09.2020

SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED
CIN: L68190DL1993CG0360
Regd. Off: Office No. 32/2, Noida, Sector 18, Noida, Commercial Complex,
Noida-201305
Corporate Office: 10/15-16, Connaught Place, New Delhi-110060
Email Id- sitalleasing@gmail.com
Website: www.sitalleasingfinance.com, Contact No.: 280043431

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 12:30 P.M. at the corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.sitalleasingfinance.com and also on the website of MSEI limited www.mseil.in.

By Order of the Board
For Sital Leasing and Finance Limited
Sd/-
Nishu
Company Secretary &
Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 01.09.2020

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED
CIN: L68190DL1993CG0360
Regd. Off: 47/15, Rajendra Place Metro Station,
New Delhi-110008
Email Id- shrinivasleasing@gmail.com
Website: www.shrinivasleasingfinance.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 09th September 2020 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2020 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.06.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.shrinivasleasingfinance.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.

By Order of the Board
For Shri Niwas Leasing and Finance Ltd
Sd/-
Ravi Kumar Dhabotia
Company Secretary &
Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 01.09.2020